

हरयाणा ने PM कुसुम के तहत 24,484 सौर जल पंपों के लिये वजिताओं की घोषणा की चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरयाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (HAREDA) ने [प्रधानमंत्री कसिन ऊर्जा सरकार एवं उत्थान महाभियन योजना \(PM कुसुम\)](#) के घटक B के हस्से के रूप में 24,484 सौर जल पंपों सिस्टम के प्रावधान, स्थापना और कमीशनगी के लिये अनुबंध दिये हैं।

मुख्य बिंदु:

- PM कुसुम का घटक B कृषिशिर्षों के लिये दो मलियन सवतंतर सौर जल पंपों की स्थापना पर केंद्रति है।
- यह परियोजना व्यक्तिगत कसिनों, जल उपयोगकर्ता संघों, पशु आश्रयों, [कसिन-उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषित्रिण समितियों](#) और समुदाय-आधारति सचिवाई प्रणालयों जैसे कई लाभार्थियों को लक्षित करती है।

PM कुसुम क्या है?

- **परियोजना:**
 - PM-कुसुम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देकर [कृषिकेत्र](#) में बदलाव लाना है।
 - यह मांग-संचालित वृद्धिकोण पर कार्य करती है। वभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से प्राप्त मांगों के आधार पर कृषमताओं का आवर्तन किया जाता है।
 - वभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से PM-कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा कृषमता वृद्धि हासिल करना है।
- **PM-कुसुम का उद्देश्य:**
 - **कृषिकेत्र का डी-डिजिटलाइजेशन:** इस योजना का उद्देश्य [सौर ऊर्जा संचालित पंपों](#) और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सचिवाई के लिये डीज़िल पर निभरता को कम करना है। इसका उद्देश्य सौर पंपों के उपयोग के माध्यम से सचिवाई लागत को कम करके और उन्हें गर्डि को अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने में सक्षम बनाकर कसिनों की आय में वृद्धिकरना है।
 - **कसिनों के लिये जल और ऊर्जा सुरक्षा:** सौर पंपों तक पहुँच प्रदान करके तथा सौर-आधारति सामुदायकि सचिवाई परियोजनाओं को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य कसिनों के लिये जल एवं ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
 - **पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश:** सुवच्छ और नवीकरणीय सौर ऊर्जा को अपनाकर इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।
- **घटक:**
 - **घटक-A:** कसिनों की बंजर/परती/चरागाह/दलदली/कृषियोग्य भूमि पर 10,000 मेगावाट के बिन्दीकृत ग्राउंड/स्टेलिट माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
 - **घटक-B:** 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।
 - **घटक-C:** 15 लाख ग्राउंड से जुड़े कृषिपंपों का सोलराइजेशन: व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन और फीडर लेवल सोलराइजेशन।